



विषयवस्तु

प्राक्कथन

पृष्ठ सं.

1-3

अनुशंसित अध्ययन सामग्री

1-5

मॉड्यूल क : अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग

अध्याय 1

विनिमय दरें और विदेशी मुद्रा कारोबार

1.0	उद्देश्य	5
1.1	प्रस्तावना	5
1.2	विदेशी मुद्रा - परिभाषा एवं बाजार	6
	अपनी प्रगति जांचिए (क)	9
1.3	विनिमय दरों का निर्धारण करने वाले कारक	9
1.4	विनिमय दर की व्यवस्था	11
	विनिमय का अंकगणित - सैद्धांतिक विहंगावलोकन	16
	अपनी प्रगति जांचिए (ख)	17
1.5	विदेशी मुद्रा के सौदा कक्ष (Dealing Room) के परिचालन	18
1.6	भारतीय रिजर्व बैंक/फेडरल के दिशानिर्देश	22
	अपनी प्रगति जांचिए (ग)	27
	सारांश	32
	प्रमुख शब्द	32



विषयवस्तु

	पृष्ठ सं.
अपनी प्रगति जांचिए के उत्तर	35
सत्रांत प्रश्न	35
अतिरिक्त अध्ययन के लिए संदर्भ	38

अध्याय 2

विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों (Derivatives) के मूलभूत तत्व

2.0	उद्देश्य	41
2.1	प्रस्तावना	41
2.2	जोखिमों की परिभाषा और विदेशी मुद्रा परिचालनों में जोखिम अपनी प्रगति जांचिए (क)	42 50
2.3	जोखिम प्रबंधन एवं जोखिम प्रबंधन से संबंधित दिशानिर्देश	51
2.4	व्युत्पन्नियां क्या होती हैं - इतिवृत्त एवं विकास अपनी प्रगति जांचिए (ख)	54 56
	सारांश	56
	प्रमुख शब्द	57
	अपनी प्रगति जांचिए के उत्तर	58
	सत्रांत प्रश्न	58
	अतिरिक्त अध्ययन हेतु संदर्भ	59

अध्याय 3

संपर्की बैंकिंग और अनिवासी भारतीय खाते

3.0	उद्देश्य	63
3.1	प्रस्तावना	63
3.2	संपर्की बैंकिंग - खाते एवं अन्य सेवाएं	63

3.3	प्रेषण की इलेक्ट्रॉनिक विधियां/पेमेंट गेटवे - स्विफ्ट, चिप्स, चैप्स आरटीजीएस आदि	66
	अपनी प्रगति जांचिए (क)	70
3.4	अनिवासी भारतीय बैंकिंग	70
3.5	अनिवासी विदेशी खाते - रुपया और विदेशी मुद्रा खाते	72
	अपनी प्रगति जांचिए (ख)	79
3.6	अनिवासी भारतीयों को सुविधाएं	79
3.7	अनिवासियों को अग्रिम और अनिवासी भारतीय की जमाराशियों/गारंटियों पर अन्य पक्ष को अग्रिम, अन्य ऋण	83
	अपनी प्रगति जांचिए (ग)	85
	सारांश	85
	प्रमुख शब्द	86
	अपनी प्रगति जांचिए के उत्तर	86
	सत्रांत प्रश्न	86
	अतिरिक्त अध्ययन हेतु संदर्भ	88

अध्याय 4

प्रलेखी साख पत्र

4.0	उद्देश्य	91
4.1	प्रस्तावना	91
4.2	साख पत्र की परिभाषा	92
4.3	साख पत्रों के प्रकार	92
	अपनी प्रगति जांचिए (क)	96
4.4	साख पत्रों के परिचालन	96
4.5	यूसीपी 600, महत्वपूर्ण परिवर्तन	98



विषयवस्तु

	पृष्ठ सं.
4.6 पक्षकारों के दायित्व, उत्तरदायित्व और कर्तव्य	103
अपनी प्रगति जांचिए (ख)	106
4.7 साख पत्र के अधीन प्रलेख - छानबीन, परिणति, साख पत्र के अधीन बिलों का अनुवर्तन और बैंकों के लिए सुरक्षोपाय	106
4.8 साख पत्र से संबंधित लेनदेनों से जुड़े जोखिम	111
अपनी प्रगति जांचिए (ग)	113
4.9 आपाती साख पत्र (गारंटियों के समान)	113
4.10 बैंक से बैंक को प्रतिपूर्ति के लिए एक समान नियम (यूआरआर - 725)	116
4.11 अंतरराष्ट्रीय मानक बैंकिंग प्रथा - 745 (ISBP 745)	119
अपनी प्रगति जांचिए (घ)	120
4.12 इंकोटर्म्स	120
4.13 वृत्त (मामला) अध्ययन	121
सारांश	125
प्रमुख शब्द	125
अपनी प्रगति जांचिए के उत्तर	126
सत्रांत प्रश्न	126
अतिरिक्त अध्ययन के लिए संदर्भ	128

अध्याय 5

निर्यातकों और आयातकों को सुविधाएं

5.0 उद्देश्य	131
5.1 प्रस्तावना	131
5.2 निर्यातकों के लिए विनियम एवं व्यापार नियंत्रण से संबंधी दिशानिर्देश	132
5.3 निर्यातकों को सुविधाएं - निर्यात से सम्बद्ध सुविधाएं/विप्रेषण	137
अपनी प्रगति जांचिए (क)	140

5.4	निर्यात वित्त	141
5.5	निर्यातकों को गोल्ड कार्ड की हैसियत	153
5.6	निर्यात आंकड़ा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (EDPMS)	155
5.7	फॉरफेटिंग एवं लेनदारी लेखा क्रय सेवाएं (फैक्टरिंग)	156
	अपनी प्रगति जांचिए (ख)	159
5.8	आयातकों के लिए विनिमय और व्यापार नियंत्रण से संबंधित दिशानिर्देश	160
5.9	आयात वित्त	163
5.10	आयात आंकड़ा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (IDPMS)	164
5.11	व्यापार ऋण - आपूर्तिकर्ता ऋण एवं क्रेता ऋण	165
	अपनी प्रगति जांचिए (ग)	167
5.12	पोतलदान-पूर्व और पोतलदानोत्तर वित्त के संबंध में मामला अध्ययन	168
	सारांश	171
	प्रमुख शब्द	171
	अपनी प्रगति जांचिए के उत्तर	172
	सत्रांत प्रश्न	173
	अतिरिक्त अध्ययन के लिए संदर्भ	175

अध्याय 6

विदेश व्यापार में जोखिम - ई सी जी सी की भूमिका

6.0	उद्देश्य	179
6.1	प्रस्तावना	179
6.2	जोखिम की परिभाषा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निहित जोखिम	180
6.3	देश जोखिम	183
	अपनी प्रगति जांचिए (क)	185

6.4	अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निर्यात ऋण बीमा	185
6.5	ई सी जी सी लिमिटेड - भूमिका और उत्पाद	186
6.6	ई सी जी सी पॉलिसियां	188
6.7	वित्तीय गारंटियां	195
6.8	ईसीजीसी की पॉलिसियों और गारंटियों से संबंधित अन्य पहलू	200
	अपनी प्रगति जांचिए (ख)	202
	सारांश	202
	प्रमुख शब्द	203
	अपनी प्रगति जांचिए के उत्तर	203
	वस्तुनिष्ठ प्रकार के सत्रांत प्रश्न	203
	अतिरिक्त अध्ययन के लिए संदर्भ	205

अध्याय 7

निर्यात-आयात बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत में विनिमय नियंत्रण -
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम और भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ
तथा अन्यो की भूमिका

7.0	उद्देश्य	209
7.1	निर्यात-आयात बैंक - भूमिका, कार्य और सुविधाएं	209
	अपनी प्रगति जांचिए (क)	215
7.2	भारतीय रिजर्व बैंक : भूमिका और भारत में विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमावली	215
7.3	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) 1999	218
	अपनी प्रगति जांचिए (ख)	227
7.4	भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) की भूमिका और फेडाई के नियम	228
	अपनी प्रगति जांचिए (ग)	241

7.5	अन्य विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणियां	242
	अपनी प्रगति जांचिए (घ)	248
	सारांश	248
	प्रमुख शब्द	249
	अपनी प्रगति जांचिए के उत्तर	250
	सत्रांत प्रश्न	250
	अतिरिक्त अध्ययन हेतु संदर्भ	251

माइयुल ख : जोखिम प्रबंधन

अध्याय 8

जोखिम और जोखिम प्रबंधन का मूलभूत ढांचा

8.0	उद्देश्य	257
8.1	प्रस्तावना - जोखिम क्या है?	257
8.2	जोखिम पूंजी और प्रतिलाभ के बीच सम्बद्धता	259
8.3	जोखिम प्रबंधन करना क्यों जरूरी होता है?	260
	सारांश	262
	अपनी प्रगति जांचिए	263
8.4	जोखिम प्रबंधन का मूलभूत ढांचा	264
	सारांश	276
	प्रमुख शब्द	278
	सत्रांत प्रश्न	278



विषयवस्तु

	पृष्ठ सं.
अपनी प्रगति जांचिए के उत्तर	279
सत्रांत प्रश्नों के उत्तर	279

अध्याय 9

बैंकिंग व्यवसाय में जोखिम

9.0	उद्देश्य	283
9.1	बैंकिंग व्यवसाय में जोखिम निर्धारण	283
9.2	बैंकिंग बही	285
9.3	व्यापारिक बही	286
9.4	तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर	287
	सारांश	293
	प्रमुख शब्द	294
	सत्रांत प्रश्न	294
	सत्रांत प्रश्नों के उत्तर	295

अध्याय 10

बैंकिंग उद्योग में जोखिम विनियमन

10.0	उद्देश्य	299
10.1	बैंकिंग का विनियमन - आवश्यकता और उद्देश्य	299
10.2	बदले हुए वैश्विक परिदृश्य में जोखिम-आधारित विनियमन की आवश्यकता	300
10.3	बासेल I : बासेल पूंजी करार	303
10.4	बाजार जोखिम को शामिल करने हेतु 1996 का संशोधन	304
10.5	बासेल II करार : आवश्यकता और उद्देश्य	305

10.6	बासेल II करार	306
10.7	बासेल III की दिशा में	308
10.8	ऋण जोखिम के लिए पूंजी भार	316
10.9	ऋण जोखिम न्यूनीकरण	319
10.10	बाजार जोखिम के लिए पूंजी भार	326
10.11	परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत प्रभार	333
10.12	पिलर 2 : पर्यवेक्षीय समीक्षा प्रक्रिया	335
10.13	पिलर 3 : बाजार अनुशासन	342
10.14	पूंजी संरक्षण बफर	345
10.15	लीवरेज अनुपात	347
10.16	प्रतिचक्रीय पूंजी बफर	348
10.17	सारांश	350
	प्रमुख शब्द	354
	सत्रांत प्रश्न	354
	सत्रांत प्रश्नों के उत्तर	356
	बासेल III के अंतर्गत भारतीय बैंकों के लिए विनियामक पूंजी अपेक्षाएं	357

अध्याय 11

बाजार जोखिम

11.0	उद्देश्य	405
11.1	बाजार जोखिम - अवधारणा	405
11.2	बैंकों में बाजार जोखिम	406
11.3	बाजार जोखिम प्रबंधन ढांचा	410
11.4	संगठन का ढांचा	411



विषयवस्तु

	पृष्ठ सं.
11.5 जोखिम निर्धारण	413
11.6 जोखिम मापन	413
11.7 जोखिम निगरानी और उसका नियंत्रण	422
11.8 जोखिम रिपोर्टिंग	424
11.9 व्यापारिक चलनिधि का प्रबंधन	424
11.10 जोखिम न्यूनीकरण	425
सारांश	427
प्रमुख शब्द	429
सत्रांत प्रश्न	429
सत्रांत प्रश्नों के उत्तर	430

अध्याय 12

ऋण जोखिम

12.0 उद्देश्य	433
12.1 सामान्य	433
12.2 ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचा	434
12.3 संगठनात्मक ढांचा	434
12.4 जोखिम की पहचान	436
12.5 जोखिम मापन	438
12.6 ऋण जोखिम नियंत्रण और उसकी निगरानी	444
12.7 लेनदेन के स्तर पर ऋण जोखिम नीतियां एवं नीतिगत दिशानिर्देश	444
12.8 पोर्टफोलियो के स्तर पर ऋण नियंत्रण और निगरानी	447
12.9 सक्रिय ऋण पोर्टफोलियो प्रबंधन	448

	पृष्ठ सं.
12.10 ऋण पुनरीक्षण व्यवस्था के माध्यम से ऋण जोखिम को नियंत्रित करना	449
12.11 ऋण जोखिम न्यूनीकरण	451
12.12 प्रतिभूतिकरण	452
12.13 ऋण व्युत्पन्नियां	454
सारांश	462
प्रमुख शब्द	464
सत्रांत प्रश्न	464
प्रश्नों के उत्तर	466

अध्याय 13

परिचालन जोखिम और एकीकृत जोखिम प्रबंधन

13.0 उद्देश्य	471
13.1 परिचालन जोखिम - सामान्य	471
13.2 परिचालन जोखिम - वर्गीकरण	472
13.3 परिचालन जोखिम का घटना के प्रकार द्वारा वर्गीकरण - परिभाषाएं	474
13.4 परिचालन जोखिम प्रबंधन की प्रथाएं	474
13.5 प्रबंधन का विहंगावलोकन एवं संगठनात्मक ढांचा	477
13.6 प्रक्रियाएं एवं रूपरेखा	478
13.7 जोखिम निगरानी और उसके नियंत्रण की प्रथाएं	478
13.8 परिचालन जोखिम का प्रमात्रीकरण	479
13.9 परिचालन जोखिम न्यूनीकरण	482
13.10 परिदृश्य विश्लेषण	482
13.11 एकीकृत जोखिम प्रबंधन	483

	पृष्ठ सं.
13.12 एकीकृत जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता	484
13.13 एकीकृत जोखिम प्रबंधन - चुनौतियां	484
13.14 एकीकृत जोखिम प्रबंधन - दृष्टिकोण	486
सारांश	487
प्रमुख शब्द	491
सत्रांत प्रश्न	491
सत्रांत प्रश्नों के उत्तर	493

अध्याय 14

चलनिधि जोखिम प्रबंधन

14.0 उद्देश्य	497
14.1 प्रस्तावना	497
14.2 चलनिधि जोखिम प्रबंधन - आवश्यकता एवं महत्व	498
14.3 संभाव्य चलनिधि जोखिम संवाहक	500
14.4 चलनिधि जोखिम के प्रकार	500
14.5 सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंधन के सिद्धांत	500
14.6 चलनिधि जोखिम प्रबंधन का अभिशासन	505
14.7 चलनिधि जोखिम प्रबंधन नीति, रणनीतियां और प्रथाएं	506
14.8 चलनिधि जोखिम का प्रबंधन	507
14.9 चलनिधि जोखिम प्रबंधन के संबंध में अनुपात	508
14.10 दबाव परीक्षण	509
14.11 आकस्मिकता निधीयन योजना	510

14.12	भारतीय बैंकों की शाखाओं तथा सहायक संस्थाओं और भारत में स्थित विदेशी बैंकों की शाखाओं द्वारा विदेशों में परिचालन	510
14.13	चलनिधि प्रबंधन के संबंध में विस्तृत मानदंड	511
14.14	विभिन्न मुद्राओं में चलनिधि	511
14.15	सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस)	512
14.16	भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्टिंग	512
14.17	आंतरिक नियंत्रण	513
	सारांश	514
	प्रमुख शब्द	515
	सत्रांत प्रश्न	515
	सत्रांत प्रश्नों के उत्तर	516

अध्याय 15

चलनिधि मानकों पर बासेल III ढांचा

15.0	उद्देश्य	519
15.1	प्रस्तावना	519
15.2	चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर)	520
15.3	चलनिधि जोखिम निगरानी साधन	523
15.4	निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर)	524
	सारांश	525
	प्रमुख शब्द	526
	सत्रांत प्रश्न	526
	सत्रांत प्रश्नों के उत्तर	526



मॉड्यूल ग : खजाना प्रबंधन

अध्याय 16

खजाना प्रबंधन : परिचय

16.0	उद्देश्य	531
16.1	संकल्पना	531
16.2	एकीकृत खजाने के कार्य	532
16.3	वैश्वीकरण की प्रक्रिया	534
16.4	लार्भाजन केन्द्र के रूप में खजाने की उभरती भूमिका	538
16.5	खजाने का संगठन	542
	सारांश	545
	प्रमुख शब्द	546
	बहु-विकल्पी प्रश्न	547
	बहु-विकल्पी प्रश्नों के उत्तर	548

अध्याय 17

खजाना उत्पाद

17.0	उद्देश्य	551
17.1	विदेशी मुद्रा बाजार के उत्पाद	551
17.2	मुद्रा बाजार के उत्पाद	555
17.3	प्रतिभूति बाजार के उत्पाद	564
17.4	घरेलू और वैश्विक बाजार	569
	सारांश	571

प्रमुख शब्द	572
बहु-विकल्पी प्रश्न	574
बहु-विकल्पी प्रश्नों के उत्तर	575

अध्याय 18

निधीयन एवं विनियामक पहलू

18.0	उद्देश्य	579
18.1	आरक्षित आस्तियां : आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात	579
18.2	चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF)	584
18.3	भुगतान एवं निपटान प्रणालियां	585
	सारांश	588
	प्रमुख शब्द	589
	बहु-विकल्पी प्रश्न	590
	बहु-विकल्पी प्रश्नों के उत्तर	591

अध्याय 19

खजाना जोखिम प्रबंधन

19.0	उद्देश्य	595
19.1	खजाने का पर्यवेक्षण और नियंत्रण	595
19.2	बाजार जोखिम और ऋण जोखिम	601
19.3	जोखिम माप : जोखिम पर मूल्य (VaR) और अवधि (Duration)	604
19.4	जोखिम प्रबंधन में व्युत्पन्नियों का उपयोग	608
	सारांश	608
	प्रमुख शब्द	609



विषयवस्तु

	पृष्ठ सं.
बहु-विकल्पी प्रश्न	610
बहु-विकल्पी प्रश्नों के उत्तर	611

अध्याय 20 व्युत्पन्नी उत्पाद

20.0	उद्देश्य	615
20.1	व्युत्पन्नियां और खजाना	615
20.2	काउंटर पर और एक्सचेंज में खरीदे-बेचे जाने वाले उत्पाद	616
20.3	वायदा, विकल्प, भावी सौदे (फ्यूचर्स) और अदला-बदलियां	617
20.4	ब्याज दर और मुद्रा अदला-बदलियां	625
20.5	भारतीय बाजारों की घटनाएं और जोखिम एक्सपोजर पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश	630
	सारांश	635
	प्रमुख शब्द	637
	बहु-विकल्पी प्रश्न	637
	बहु-विकल्पी प्रश्नों के उत्तर	638

अध्याय 21 खजाना और आस्ति देयता प्रबंधन

21.0	उद्देश्य	641
21.1	आस्ति-देयता प्रबंधन (ALM) का अर्थ	641
21.2	चलनिधि जोखिम बनाम ब्याज दर संवेदनशीलता जोखिम	642
21.3	आस्ति प्रबंधन देयता में खजाने की भूमिका	646
21.4	आस्ति-देयता प्रबंधन में व्युत्पन्नियों का उपयोग	647
21.5	खजाना और ऋण जोखिम तथा ऋण व्युत्पन्नियां	649

21.6	अंतरण मूल्य निर्धारण	652
21.7	नीतिगत परिवेश	653
	सारांश	654
	प्रमुख शब्द	655
	बहु-विकल्पी प्रश्न	656
	बहु-विकल्पी प्रश्नों के उत्तर	657

मॉड्यूल घ : तुलनपत्र अध्ययन

अध्याय 22

बैंक के तुलनपत्र में आस्तियों और देयताओं के घटक और उनका प्रबंधन

22.0	उद्देश्य	663
22.1	परिचय	663
22.2	बैंक के तुलनपत्र के घटक	664
22.3	आस्ति-देयता प्रबंधन क्या है?	670
22.4	आस्ति-देयता प्रबंधन की सार्थकता	671
22.5	आस्ति-देयता प्रबंधन का उद्देश्य और लक्ष्य	673
22.6	समन्वित तुलनपत्र प्रबंधन के रूप में आस्ति-देयता प्रबंधन	675
	सारांश	676
	प्रमुख शब्द	677
	अपनी प्रगति जांचिए	677
	सत्रांत प्रश्न	678
	अपनी प्रगति जांचिए के उत्तर	678



अध्याय 23

बैंकिंग विनियमन और पूंजी

23.0	उद्देश्य	681
23.1	पूंजी और बैंकिंग विनियमन	681
	प्रमुख शब्द	688
	सत्रांत प्रश्न	688

अध्याय 24

पूंजी पर्याप्तता - बासेल II का विहंगावलोकन

24.1	परिचय	691
24.2	बासेल II - संशोधित ढांचा	692
24.3	अनुप्रयोग का दायरा	692
24.4	पिलर I - न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं	694
	सारांश	696
	प्रमुख शब्द	697
	सत्रांत प्रश्न	697

अध्याय 25

पर्यवेक्षी समीक्षा

25.1	परिचय	701
25.2	पिलर 2 - पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया	702
	सारांश	711
	प्रमुख शब्द	711
	सत्रांत प्रश्न	712

अध्याय 26**पिलर 3 - बाजार अनुशासन**

26.1	परिचय	723
26.2	पिलर 3 - बाजार अनुशासन	724
	सारांश	735
	प्रमुख शब्द	735
	सत्रांत प्रश्न	735

अध्याय 27**आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड**

27.0	उद्देश्य	739
27.1	परिचय	739
27.2	आस्ति वर्गीकरण	739
27.3	प्रावधानीकरण मानदंड	752
	सारांश	763
	प्रमुख शब्द	763
	सत्रांत प्रश्न	764

अध्याय 28**चलनिधि प्रबंधन**

28.0	उद्देश्य	767
28.1	परिचय	767
28.2	परिभाषा	768



विषयवस्तु

	पृष्ठ सं.
28.3 चलनिधि और जोखिम प्रबंधन के आयाम एवं भूमिका	768
28.4 चलनिधि जोखिम का मापन और उसका प्रबंधन करना	771
सारांश	790
प्रमुख शब्द	791
अपनी प्रगति जांचिए	791
सत्रांत प्रश्न	792
अपनी प्रगति जांचिए के उत्तर	793

अध्याय 29

ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

29.0 उद्देश्य	797
29.1 परिचय	797
29.2 ब्याज दर जोखिम के अनिवार्य तत्व	798
29.3 ब्याज दर जोखिम के स्रोत	799
29.4 ब्याज दर जोखिम के प्रभाव	804
29.5 ब्याज दर जोखिम को मापना	806
29.6 ब्याज दर जोखिम मापने की तकनीकें	807
29.7 ब्याज दर जोखिम को नियंत्रित करने की रणनीतियां	812
29.8 ब्याज दर जोखिम प्रबंधन पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण	814
29.9 सुदृढ़ ब्याज दर जोखिम प्रबंधन पद्धतियां	815
29.10 बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम पर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रारूप दिशानिर्देश	817
सारांश	819
प्रमुख शब्द	821

अपनी प्रगति जांचिए	822
सत्रांत प्रश्न	822
अपनी प्रगति जांचिए के उत्तर	823

अध्याय 30

पूँजी पर जोखिम समायोजित प्रतिलाभ (RAROC) और लाभ आयोजना

30.0	उद्देश्य	831
30.1	परिचय	831
30.2	लाभ आयोजना	832
30.3	जोखिम समूहन और पूँजी आबंटन	835
30.4	आर्थिक पूँजी और पूँजी पर जोखिम समायोजित प्रतिलाभ	836
	सारांश	839
	प्रमुख शब्द	839
	सत्रांत प्रश्न	839

